



## प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 17.11.2022

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:—

### जनपद खीरी में सड़क सुरक्षा यातायात माह नवंबर 2022 के अंतर्गत की गई कार्यवाही



पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी यातायात महोदय के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के अंतर्गत बिना फिटनेस, तीन सवारी, बिना हेलमेट, बिना बीमा, बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाने पर शहर स्थित सैधरीबाईपास, मेदनिया गंज चौराहा, पंडित दीनदयाल चौराहा पर यातायात प्रभारी निर्मलजीत यादव आरक्षी यातायात बीवन राज, पंकज वर्मा, सत्यप्रकाश द्वारा सघन चेकिंग की गई एवं यातायात नियमों के बारे में पंपलेट देकर जानकारी एवं जागरूक किया गया एवं यातायात नियमों के पालन करने हेतु बताया गया कि आए दिन सड़क हादसे होते हैं जिसमें लोगों की जान चली जाती है इसका सबसे प्रमुख कारण यातायात नियमों की जानकारी ना होना या जानकारी होने के बाद भी उसका पालन ना करना है दुर्घटना से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करे वाहन चलाते समय हेलमेट, सीट बेल्ट का उपयोग अवश्य करें भीड़भाड़ वाले स्थानों पर वाहन को निर्धारित गति में चलाएं

नशे की हालत में व मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाने से बचें स्टंट बाइकिंग से बचे हैं काली फिल्म, मॉडिफाई साइलेंसर, हूटर, प्रेशर हॉर्न का प्रयोग ना करें, गलत दिशा में ना चले इस तरह यातायात नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटनाएं कम होगी तथा लोग सुरक्षित रहेंगे साथ ही रोड के किनारे अपने वाहन आदि ना खड़ा करें, ट्रैक्टर ट्रॉली, लोडर पिकअप पर यात्रा न करें। साथ ही ट्रैफिक वॉलंटियर आदर्श वर्मा द्वारा सुमित्रा देवी इंटर कॉलेज बिशुनपुर एवं शिववती विद्या मंदिर गोपालापुर लखीमपुर खीरी में करीब 400 छात्र छात्राओं को पंपलेट देकर यातायात नियमों की जानकारी देते हुए पालन करने के लिए अपील की गई।

यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों एवं वाहनों के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम के तहत कुल 195 वाहनों का चालान व 02 वाहन सीज किए गए हैं।

## थाना पसगवां पुलिस द्वारा 02 नफर वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद खीरी व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद खीरी द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के दौरान थाना पसगवां पुलिस द्वारा आज दिनांक 17.11.2022 को 02 नफर वारण्टी अभियुक्तों 1.रामनिवास पुत्र लालाराम नि० दुल्हापुर दरियाबाद करमहुसैन थाना पसगवां जनपद खीरी संबंधित अ०सं० 1329/20 मु०अ०सां० 467/2019 धारा 60(2) आबाकारी अधि० 2.बब्बी पुत्र राजाराम नि० ग्राम जमुका थाना पसगवां जनपद खीरी संबंधित अ०सं० 379/21 धारा 60(2) आबकारी अधि० को गिरफ्तार कर मा० न्यायालय भेजा गया ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

उ०नि० मोहित पुण्डीर थाना पसगवां जनपद खीरी  
कां० दीपक कुमार  
कां० विवेक भारती  
म०कां० रिचा  
म०कां० नीतू यादव